

## डिजिटल स्किल्स में पेशेवरों को अपस्किल करने के लिए एनएसडीसी और सिंपलीलर्न एक साथ आगे आए

- ये साझेदारी डिजिटल स्किल्स और टेक्नोलॉजी को सीखने में मदद करेगी
- 1,000 से अधिक घंटे तक मुफ्त ई-लर्निंग तक पहुंच, सिंपलीलर्न एंड्रॉइड और आईओएस मोबाइल ऐप पर विशेष रूप से उपलब्ध है

**नई दिल्ली / बेंगलुरु, 06 अगस्त, 2020:** कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की अस्थायी बंदी ने बड़ी संख्या में छात्रों और पेशेवरों की समग्र शिक्षा को प्रभावित किया है। भारतीय कार्यबल की डिजिटल स्किलिंग की निरंतरता को आगे बढ़ाने के लिए, डिजिटल स्किल ट्रेनिंग के ग्लोबल प्रोवाइडर, सिंपलीलर्न ने आज **राष्ट्रीय कौशल विकास निगम** के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। इस सहयोग के माध्यम से, सिंपलीलर्न पूरे भारत में सीखने वालों के लिए डिजिटल स्किल और टेक्नोलॉजीज़ में 1,000 घंटे से अधिक की मुफ्त शिक्षा की मेजबानी करेगा। एनएसडीसी के ई-लर्निंग पोर्टल - eSkill India - पर प्रोग्राम विवरण पा सकते हैं - और सिंपलीलर्न के [Android mobile app \(bit.ly/simplicertified\)](https://bit.ly/simplicertified) और [iOS mobile app \(apple.co/30pnzsm\)](https://apple.co/30pnzsm) पर सीखने के कार्यक्रमों को एक्सेस कर सकते हैं।

स्किल इंडिया मिशन को दिए गए सहयोग का उद्देश्य टेक्नोलॉजी की शक्ति का लाभ उठाकर भविष्य के लिए तैयार कार्यबल का निर्माण करना है। डिजिटल लर्निंग इकोसिस्टम को मजबूत करते हुए सिंपलीलर्न और एनएसडीसी दोनों ही **एआई और मशीन लर्निंग, बिग डेटा, डेटा साइंस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग** की श्रेणियों के तहत 1000 घंटे से अधिक के डिजिटल कार्यक्रमों और टेक्नोलॉजीज़ तक पहुंच को सक्षम करेंगे। सभी कार्यक्रमों को एक अनोखे उद्योग प्रासंगिक पाठ्यक्रम के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक समझ प्रदान करता है और उन्हें उभरते उद्योग के रुझानों के बारे में व्यापक ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए, **एनएसडीसी के एमडी और सीईओ डॉ. मनीष कुमार** ने कहा, “भविष्य के लिए तैयार स्किल्स के प्रसार के लिए बड़ी

आउटरीच क्षमताओं वाले टेक्नोलॉजीज़ प्लेटफार्म्स की आवश्यकता है। अपनी भागीदारी के माध्यम से एनएसडीसी अच्छे काम के अवसरों तक पहुँचने के लिए ऑनलाइन लर्निंग को बढ़ावा देता है जो तेजी से बदलती दुनिया की पेशकश करता है। ”

साझेदारी पर बोलते हुए, **कृष्ण कुमार, संस्थापक और सीईओ सिंपलीलर्न**, ने कहा, “इस अनिश्चित समय में हमने डिजिटल प्लेटफार्मों और टेक्नोलॉजीज़ के उपयोग में बढ़ोत्तरी देखी है, जो आने वाले दिनों में नई नौकरी की भूमिका के निर्माण का संकेत देती है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कल के उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए वर्तमान कार्यबल, डिजिटल स्किल्स के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित हो। एनएसडीसी के साथ सिंपलीलर्न की निरंतर साझेदारी के हिस्से के रूप में, डिजिटल भविष्य की तैयारी के लिए भारत के कार्यबल को पूरा करने में एनएसडीसी के प्रयासों का समर्थन करने और अपना योगदान देने में हमें खुशी हो रही है। सिंपलीलर्न के मोबाइल ऐप के माध्यम से शिक्षार्थियों को आईटी और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग, डाटा साइन्स समेत नई तकनीकों में अपस्किल करने का अवसर मिलेगा, जो नौकरी के लिए तैयार कर्मचारियों के लिए है।”

अब तक, सिंपलीलर्न ने 150 देशों में 10 मिलियन से अधिक पेशेवरों को अपस्किल करने और डिजिटल भविष्य की तैयारी करने में मदद की है और अब इसका उद्देश्य सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भविष्य के पेशेवरों के लिए कैरियर बनाने में मदद करना है।

एनएसडीसी का [eSkill India portal](#) शिक्षार्थियों को कभी भी, कहीं भी, ऑनलाइन कौशल-पाठ्यक्रम का पता लगाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। यह पोर्टल स्किल सीखने वालों को वर्चुअल लर्निंग और रिमोट क्लासरूम जैसे तरीकों के माध्यम से अपने सीखने में तेजी लाने में सक्षम बनाने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। eSkillIndia अग्रणी ज्ञान प्रदाताओं के माध्यम से कई भारतीय भाषाओं में 450 से अधिक ई-लर्निंग पाठ्यक्रम सूचीबद्ध करता है।

### **सिंपलीलर्न के बारे में**

सिंपलीलर्न, पेशेवरों और उद्यमों को तेजी से बदलती डिजिटल अर्थव्यवस्था में सफल होने में सक्षम बनाता है। कंपनी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ और एप्लीकेशन्स



□□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□□□ □□ □□□  
[www.nsdcindia.org](http://www.nsdcindia.org) □□□□□□

**अधिक जानकारी के लिए कृपया संपर्क करें:**

रुचिका टंडन | Ruchika.tandon@nsdcindia.org | +91 98102  
02457